



## प्रेस नोट थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने वाले 02 अभियुक्तों को नशीले पदार्थ के साथ किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 2.10 किलोग्राम अवैध गांजा, रुपये 6,540/- सहित अन्य सामान बरामद...

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार चोरी, लूट, डकैती, जुआ आदि अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक नगर आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी शाहगंज को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

इसी क्रमानुसार दिनांक 09.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग में व्यस्त थे । इसी दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी की कि केदार नगर रोड पर भोले बाबा मन्दिर के पास 02 व्यक्ति सट्टे की खाई बाड़ी कर रहे हैं तथा उनके पास नशीला पदार्थ गांजा भी है । यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं ।

### ➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुँची । पुलिस टीम द्वारा मन्दिर के पास सट्टा लगे रहे दो व्यक्तियों को चोरों ओर से घेर कर एक बारगी की दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से 2.10 किलोग्राम अवैध गांजा, 19 पर्ची लिखी हुया, 16 पर्चा खाली, 02 अदद पेन, 02 अदद गत्ता व रुपये 6,540/- बरामद किये गये । बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0 265/21 व 266/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 267/21 व 268/21 धारा 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

### ➤ अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अपना नाम 1. राजीव चोपड़ा पुत्र विश्वामित्र चोपड़ा निवासी केदार नगर थाना शाहगंज जनपद आगरा 2. मोहित चोपड़ा पुत्र शिवकुमार चोपड़ा निवासी शंताकुन्ज कर्मयोगी थाना कमला नगर जनपद आगरा बताया गया । अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग सट्टे की खाई बाड़ी करते हैं और क्रिकेट मैच में भी सट्टा



लगाते हैं। बरामद गांजे के बारे में बताया कि सट्टा लगाने वाले कुछ लोगों को हम गांजे की पुड़िया बनाकर बेच देते हैं और जो मुनाफा कमाते हैं वह आपस में बाँट लेते हैं।

## ➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. राजीव चोपड़ा पुत्र विश्वामित्र चोपड़ा निवासी केदार नगर थाना शाहगंज जनपद आगरा।
02. मोहित चोपड़ा पुत्र शिवकुमार चोपड़ा निवासी शंताकुन्ज कर्मयोगी थाना कमला नगर जनपद आगरा।

## ➤ बरामदगी का विवरण:-

01. 2.10 किलोग्राम अवैध गांजा।
02. 19 पर्ची लिखी हुयी।
03. 16 पर्चा खाली।
04. 02 अदद पेन।
05. 02 अदद गत्ता।
06. रुपये 6,540/-।

## ➤ आपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्त राजीव चौपड़ा -
  01. मु0अ0सं0 265/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा।
  02. मु0अ0सं0 267/21 धारा 3/4 जुआ अधिनियम थाना शाहगंज जनपद आगरा।
- अभियुक्त मोहित चोपड़ा -
  01. मु0अ0सं0 266/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा।
  02. मु0अ0सं0 268/21 धारा 3/4 जुआ अधिनियम थाना शाहगंज जनपद आगरा।

## ➤ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. श्री संजय रेड्डी क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी जनपद आगरा।
02. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह राघव थाना शाहगंज जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री अजय कुमार प्रभारी स्वॉट टीम जनपद आगरा।
04. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना शाहगंज जनपद आगरा।



Date 09-07-2021

05. कां0 सुमित पवार व कां0 संदीप मिश्रा थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

06. है0कां0 ज्ञानेन्द्र, है0कां0 अनिल शर्मा, कां0 धर्मेन्द्र कुमार, कां0 श्याम सिंह, कां0 अनूप सिंह, कां0 भानू प्रताप, कां0 अमित कुमार स्पोर्ट टीम जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।

